#### All e Technologies Ltd.

A 1, Sector 58, Noida 201301, India Tel.: +91-120-3000 300 www.alletec.com

Regd. Office: UU-14, Vishakha Enclave Pitampura

Delhi-110034, India

CIN: L72200DL2000PLC106331



September 02, 2025

Listing Department National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Plot No. C-l G Block Bandra-Kurla Complex, Bandra(E) Mumbai -400051

SYMBOL: ALLETEC ISIN: INEOM2X01012

Subject: Newspaper Publication of Notice of 25th Annual General Meeting and Record Date.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the provisions of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisements that were published on Tuesday, September 02, 2025 in the Financial Express (English newspaper) and Jansatta (Hindi Newspaper), in connection with ensuing 25<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company to be held Friday, September 26, 2025 at 3:00 PM (IST) also contains the information related to E-voting and Record Date.

Kindly take the information on your record.

Thanking you,

Yours truly

For All e Technologies Limited

Kanak Gupta Company Secretary and Compliance Officer Membership No.: A74117 **FINANCIAL EXPRESS** 

(Rs. in Lacs except share data)



# ALL E TECHNOLOGIES LIMITED

CIN: L72200DL2000PLC106331

Tel.: +91-120-3000 300, www.alletec.com Regd. Office: UU-14, Vishakha Enclave, Pitampura Delhi-110034, India

#### NOTICE OF 25™ ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 25th Annual General Meeting (AGM) of the Members of All e Technologies Limited is scheduled to be held on Friday, September 26, 2025 at 3:00 PM (IST) through Video Conferencing/Other Audio-Visual Means (VC), in Compliance with General Circular latest one being Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 read with earlier circular and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) read with SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023, ('SEBI Circulars') and the applicable provision of the Companies Act, 2013 ('the ACT') read with the Rules made there under, to transact the business set forth in the Notice convening the 25th AGM (AGM Notice).

Completion of dispatch of AGM Notice & Annual Report For Fy'25: In compliance with MCA Circulars and SEBI Circulars, the Company has sent the AGM Notice and the Annual Report for FY'25 on Monday, September 01, 2025 via, e-mail, to those Members whose e-mail address was registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent/Depository Participant(s).

The AGM Notice and Annual Report are also available on the Company's Website a https://www.alletec.com/investors-alletec. on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com and also on the website of the Stock Exchange i.e. The National Stock Exchange of India Limited at https://www.nseindia.com/

E-voting: In compliance with Section 108 of the Act read with the Rules made thereunder, Regulation 44 of the Listing Regulations and the Secretarial Standard - 2 on General Meeting issued by the Institute of Company Secretaries of India, Members have been provided with the facility to cast their vote on all resolution set forth in AGM Notice using electronic voting system (e-voting) provided by NSDL. Only those Members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on Friday. September 19, 2025 ('Cut-off date') will be entitled to cast their vote by remote evoting or e-voting during the AGM. Participation of members through VC will be reckoned for the purpose of quorum for the AGM as per Section 103 of the Act

The voting right of the Members shall be in proportion to their shareholding to the paidup equity share capital of the Company as on the Cut off date. Once a vote is cast by a Member, she/he will not be able to change it subsequently. Members can opt for only one mode of voting i.e. through remote e-voting or e-voting at the AGM. If a Member casts the votes by both modes then the voting done through remote e-voting shall prevail. Detailed procedure for remote e-voting and e-voting during the AGM and access to the AGM is outlined in Notes to the AGM Notice.

The Remote e-voting period begins on Tuesday, September 23, 2025 (9:00 AM IST) and ends on Thursday, September 25, 2025 (5:00 PM IST). Thereafter, the remote evoting module shall be disabled by NSDL and Members will not be allowed to vote. Members who have exercised their right to vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

Dividend: The Board of Directors at its meeting held on May 21, 2025has recommended a final dividend of ₹ 1.50 per Equity Share of the face value of ₹ 10/each (i.e. 15% on the face value of Equity Share). The Record Date for the purpose of Payment of Final Dividend is fixed as Friday, September 19, 2025, if approved at the 25th AGM, Members may please refer to Notes of the AGM Notice for TDS-related instructions on dividend payment.

Members who have not registered/updated their e-mail address and/or bank account details are requested to register/update the same in the records of the Company/Depository, as case may be, in the following manner:

Members holding share in the Demat form	Through their respective Depository Participant (DP)
Members holding share in the Physical form	Through the Company RTA i.e. Skyline Financial Services Private Limited

For any queries relating to e-voting, Members may refer to the frequently asked questions (FAQs) and e-voting user manual available in the download section of www.evoting.nsdl.com or call on.: 022 - 4886 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre - Senior Manager, NSDL at evoting@nsdl.com.

All E Technologies Limited

By order of the Board of Directors

September 01, 2025 Noida

Ajay Mian Managing Director DIN No. 00170270

#### SHYAM CENTURY FERROUS LIMITED CIN: L27310ML2011PLC008578

Regd. Office: Vill: Lumshnong, P.O.: Khaliehriat, Dist.: East Jaintia Hills, Meghalaya - 793210 Corporate Office: Century House, 2nd floor, P 15/1, Taratala Road, Kolkata - 700 088 Tel: +91 9147415110, Email: investors@shyamcenturyferrous.com Website: www.shyamcenturyferrous.com

## NOTICE TO MEMBERS - 14TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

Notice is hereby given that 14th Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Company will be held on Tuesday, 23rd September, 2025 at 2:00 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice dated 08th August, 2025 The Notice convening AGM along with Annual Report of the Company has been sen

through electronic mode on 1st September, 2025 to all the members whose e-mai addresses are registered with the Company's Registrar and Share Transfe Agent/Depository Participant(s), in accordance with the circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and Securities and Exchange Board of India ('SEBI' Additionally, in accordance with Regulation 36(1)(b) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure) Requirements, Regulations 2015, the Company is also sending a letter to the shareholders, whose email-id's are not Registered with Company's Registrar and Share Transfer Agent/Depository Participant(s), providing the web link of Company's websit from where the Annual Report 2024-25 can be accessed. The copy of 14th Notice of Annual General Meeting and Annual Report for the Financial Year 2024-25 are available & can be downloaded from the website of the Company viz www.shyamcenturyferrous.com and also on the website of Stock Exchanges where Equity Shares of the Company are listed, viz., www.nseindia.com and www.bseindia.com. The requirements of sending physical copy of Notice and Annua Reports for F.Y 2024-25 to the members have been dispensed with pursuant to MCA

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, 17th September 2025 to Tuesday, 23rd September, 2025 (both days inclusive).

Members are provided with a facility to attend the AGM through electronic platforn provided by National Securities Depository Limited (NSDL). Members may access the platform to attend the AGM through VC/OAVM at http://www.evoting.nsdl.com under the Shareholders/members login by using the remote e-voting credentials. The link for VC/OAVM will be available in shareholders/members login where the EVEN of Company will be displayed.

Members of the Company be and are hereby informed that pursuant to Section 108 o the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended the members are provided with the facility to cast their vote on all the resolutions set forth in the Notice using electronic voting system (e-voting) provided by NSDL. The detailed e-voting instructions are as enumerated below:

(a) Date and time of commencement of remote e-voting: Friday, 19th September, 2025 at 9.00 a.m. (IST).

(b) Date and time of end of remote e-voting: Monday, 22nd September, 2025 at 5.00

p.m. (IST).

(c) Cut-off date: Tuesday, 16th September, 2025. (d) The voting rights of the members shall be in proportion to the number of equity

shares held by them as on the Cut-off date i.e., Tuesday, 16th September, 2025. (e) Remote e-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on Monday, 22nd September, 2025. The remote e-voting module shall be disabled by the NSDL after aforesaid date and time.

(f) Those Members who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting during the AGM.

(g) Notice of Annual General Meeting inter alia containing the procedures of remote e-voting, e-voting during the AGM & attending the AGM through VC/OAVM are available on the website of the Company at www.shyamcenturyferrous.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

(h) Members who have acquired shares after the despatch of the Notice of AGM and before the cut-off date may approach the NSDL/ Company for issuance of the User ID and Password for exercising their right to vote by electronic means. (i) A member may participate in the AGM through VC/OAVM even after exercising hi

right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to cast their votes again (j) A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial owners maintained by Depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail facility of remote e voting or e-voting during the AGM. Members holding shares in physical form, whose e-mail addresses are not registered

with the Company, may register their e-mail address by sending the scanned copy of signed request letter mentioning their name, folio number, number of shares held and complete postal address, self-attested copy of the PAN Card along with self-attested copy of any document (such as Aadhar Card/Driving License/Voter ID Card/Passport, latest Electricity Bill/ latest Telephone/Mobile Bill/Bank Passbook particulars) to the Company at investors@shyamcenturyferrous.com or to the RTA, i.e. Maheshwari Datamatics Private Limited at mdpldc@yahoo.com. Alternatively, members may use the "E-communication registration form" available on the website of the Company www.shyamcenturyferrous.com under the Investors section. Members holding shares in demat form can register/update their e-mail address with their Depository

The Company has appointed M/s MKB & Associates, Practicing Company Secretaries (Firm Registration No.- P2010WB042700) as Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner. In case of any queries you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no. 1800-222-990 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDI 301, 3rd Floor, Naman Chambers, G Block, Plot No- C-32, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai- 400051; Email: evoting.nsdl.com; Telephone nos. + 022 - 4886 7000.

Date: 1st September, 2025

Place: Kolkata

For Shyam Century Ferrous Limited Ritu Agarwal Company Secretary M.No.- A39155



## KAMDHENU VENTURES LIMITED

[CIN: L51909HR2019PLC089207] Regd. Office: 2nd Floor, Tower-A, Building No. 9, DLF Cyber City, Phase-III, Gurugram, Haryana-122002, Phone: 0124-4604500, E-mail: cs@kamdhenupaints.com Website: www.kamdhenupaints.com

NOTICE OF THE 6™ ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) /OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM) AND EVOTING INSTRUCTIONS

NOTICE is hereby given that the 6" Annual General Meeting ("AGM") of members of Kamdhenu Ventures Limited ("Company") will be held on Friday, 26" September, 2025 at 3:00 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") Other Audio Visual Means ("OAVM"), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act" and Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as "Relevant Circulars"), to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM. Members intending to attend the AGM through VC/OAVM may attend the AGM by following the procedure prescribed in AGM Notice. Members participating in the AGM through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of guorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The proceeding of AGM conducted shall be deemed to be made at the Registered Office of the Company.

Further, in compliance with the Relevant Circulars, the Notice of the 6" AGM and the Annual Report for the financial year 2024-25 have been sent through electronic mode on 1" September, 2025 to those Members of the Company whose email addresses are registered in the records of the Company/ Registrar and Transfer Agent/ Company/ Depository Participant(s). The Annual Report for the financial year 2024-25 and the Notice of the 6th AGM, have been uploaded on the website of the company at www.kamdhenupaints.com, and is also available on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively.

#### Instruction for remote e-voting and e-voting during AGM:

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Secretarial Standards - 2 on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, the Company is providing its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the 6th AGM by electronic means ("e-voting"). Members may cast their votes remotely, using the electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL) on the dates mentioned herein below ("remote e-voting").

a) The remote e-voting facility will be available during the following voting period:

Commencement of remote e-voting : 9:00 A.M. (IST) on Tuesday, 23rd September, 2025 End of remote e-voting : 5:00 P.M. (IST) on Thursday, 25th September, 2025

The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be forthwith disabled by NSDL upon expiry of the aforesaid period.

- The facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM ("Insta Poll") and members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM through Insta Poll.
- The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) as the agency to provide e-voting facility
- d) Information and instructions including details of user id and password relating to e-voting have been sent to the members through e-mail. The same login credentials should be used for attending the AGM through VC / OAVM. e) The Cut-off date for determining eligibility of the members for remote e-voting as well as for voting at the AGM
- through Insta Poll is Friday, 19" September, 2025 ("Cut-off date"). Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date may obtain the User ID and password in the manner as provided in the Notice of the AGM and members can also send request to the company at cs@kamdhenupaints.com.
- f) The manner of remote e-voting and voting at the AGM through Instapoll by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email address is provided in

The members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the AGM.

In case any query or grievance pertaining to remote e-voting before the AGM, e-voting during the AGM and joining the AGM through VC/OAVM, Members may refer the FAQs for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on Tel.: 022-48867000 or send a request at evoting@nsdl.com Members may contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL, Trade World, A wing, 4 Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai – 400013, Tel.: 022-48867000. Further, Members may also contact with Mr. Sharwan Mangla, General Manager, MAS Services Limited, a SEBI Registered RTA at sm@masserv.com; info@masserv.com or on Telephone No.: 011-26387281/82/83.

Mr. Rupesh Agarwal, Managing Partner, (A16302) or failing him Mr. Shashikant Tiwari, (F11919), or failing him Mr. Lakhan Gupta, Partners, of M/s. Chandrasekaran Associates, Practicing Company Secretaries, have been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the process for remote e-Voting and e-Voting at the AGM in a fair and transparent manner. The results of e-voting along with scrutinizer's report will be uploaded on the company's website www.kamdhenupaints.com and will be communicated to National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited where securities of the company are listed.

> For Kamdhenu Ventures Limited Sd/-

Date: 01.09.2025 Place : Gurugram

Nikhil Sukhija Company Secretary & Compliance Officer M.No. A66209

# SARASWATI COMMERCIAL (INDIA) LIMITED

CIN: L51909MH1983PLC166605

Regd. Office: 209/210, Arcadia Building, 2rd Floor, 195, Nariman Point, Mumbai - 400 021, Telephone: 022-40198600, Fax: 022-40198650, E-mail id: saraswati.investor@gcvl.in: Website: www.saraswaticommercial.com

NOTICE OF THE 42™ (FORTY-SECOND) ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING OR OTHER AUDIO VISUAL MEANS & E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that the Forty-Second (42") Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Thursday,

25" September 2025 at 2.30 P.M. through Video Conference / Other Audio Visual Means (VC/OAVM) to transact the business as mentioned in the Notice convening the AGM. Pursuant to General circular No. 20/2020 dated 5" May, 2020 and the subsequent circulars issued from time to time, the latest

being General Circular No. 09/2024 dated 19" September, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated 3" October 2024 and other applicable circulars and notifications currently in force issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), and in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the 42" AGM of the Company is being conducted through VC/OAVM, without the physical presence of the shareholders at a common venue. Shareholders attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

# DISPATCH OF AGM NOTICE, ANNUAL REPORT AND RELATED INFORMATION:

The Company's Annual Report for the financial year 2024-25, containing, inter-alia, the Notice convening the AGM and other documents required to be attached thereto, has been sent on Monday, 01" September 2025 by electronic mode to all the members whose email addresses are registered with the Company/Depositories Participants ("DP's")/Registrar and Transfer Agent ("RTA"), in accordance with the aforesaid MCA Circulars and Listing Regulations. Additionally, in compliance with Regulation 36(1)(b) of Listing Regulations, a written communication with the web link and QR Code to access the AGM Notice and Annual Report for the financial year 2024-25 is being sent to Members whose e-mail addresses are not registered with the Company/RTA/DP.

In case members who have not registered their e-mail address are requested to register the same in respect of shares held in electronic form with the Depository through their Depository Participant(s) and in respect of shares held in physical form by writing to the Company's Registrar and Share Transfer Agent MUFG Intime India Private Limited, C-101, 1" Floor, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli West, Mumbai- 400 083, Members may note that the copy of Notice of 42" AGM and Annual Report for Financial Year 2024-25 will be available on the website of the Company, viz., www.saraswaticommercial.com and on the website of the Stock Exchanges viz., BSE Limited at www.bseindia.com respectively and also on the website of National Securities and Depositories Limited ("NSDL") viz., www.evoting.nsdl.com.

# BOOK CLOSURE FOR AGM:

Notice is hereby given that pursuant to Section 91 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of Listing Regulations, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will be closed from Thursday, 18" September 2025 to Thursday, 25" September 2025 both days inclusive for the purpose of AGM.

## VOTING THROUGH ELECTRONIC MODE (E-VOTING):

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is pleased to provide all its Members the facility to cast their vote electronically, through the remote e-voting services provided by NSDL. Members of the Company holding shares in physical or dematerialized form as on the cut-off date i.e. Thursday, 18" September 2025, may cast

#### their vote through remote e-voting. All the Members are informed that:

- (a) all the business as set out in the Notice of 42" AGM may be transacted through remote e-voting;
- (b) the remote e-voting shall commence on Sunday, 21" September 2025 at 9.00 a.m. IST;
- (c) remote e-voting shall end on Wednesday, 24"September 2025 at 5.00 p.m. IST; (d) remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on Wednesday, 24<sup>th</sup> September, 2025.
- the facility for voting through electronic voting system shall also be made available for Members present at the AGM
- Member may participate in the AGM even after exercising his vote, by remote e-voting, but shall not be allowed to vote again in the AGM.
- (g) Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. (h) Only a person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the
- Depositories as on the cut-off date Thursday, 18" September 2025 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting through electronic voting system at the AGM;
- (i) Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of this Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Thursday, 18" September 2025, may obtain the login ID and password by sending an e-mail to evoting@nsdl.com. However, if the member is already registered with NSDL for e-voting then the existing user ID and password can be used for remote e-voting.

The detailed procedure for remote e-voting and voting electronically during the 42" AGM, for members holding shares in dematerialized mode, in physical mode, and for those who have not registered their e-mail addresses, is provided in the Notice of the 42" AGM.

## SCRUTINIZER DETAILS:

Ms. Avani Gandhi (Membership No. F9220), Proprietor of M/s. Avani Gandhi & Associates, Practicing Company Secretaries, has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process (both remote e-voting and e-voting at the AGM) in a fair and transparent manner. CONTACT DETAILS FOR E-VOTING ASSISTANCE:

## In case of any queries relating to e-voting, Members may refer to the FAQs for Shareholders and the e-voting user manual

available in the download section of www.evoting.nsdl.com, or call on Tel. No.: 022-48867000, or send a request to evoting@nsdl.com. In case of any grievances connected with the facility of remote e-voting. Members may contact Ms. Rimpa Bag, NSDL, 4" Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai -400013, or e-mail at evoting@nsdl.com QUICK ACCESS TO ANNUAL REPORT:

#### Members may scan the below QR code to directly access the Company's Annual Report for financial year 2024-25 and the Notice convening the 42" AGM.

For Notice of AGM:

For the Annual Report of the Company:



Avani Sanghavi Company Secretary Membership No.: A29108 Date: September 01, 2025 Place: Mumbai

For Saraswati Commercial (India) Limited

## JATALIA GLOBAL VENTURES LIMITED

(CIRP initiated vide order dated 07.03.2024 passed by NCLT New Delhi Bench in CP No. IB-263/ND/2023 Regd. Office: 500, 5th Floor, ITL Twin Tower, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi North Delhi DL 110034 IN Email Id info@jatalia.in, Website: www.jatalia.in

Statement of Un-Audited Financial Results for the Quarter Ended 30 June 2025

	PARTICULARS	Quarter Ended			Year Ended	
S. No.		30.06.2024 (Unaudited)	31.03.2025 (Unaudited)	30.06.2024 (Unaudited)	31.03.2025 (Unaudited)	31.03.2024 Audited
1	Total Income from operations (net)	1.33	3.91	0	9.8	6.28
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(3.23)	(0.51)		4.33	(19.74)
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(3.23)	(0.51)		4.33	(19.74)
4	Net Profit / (Loss) for the period afterTax (After Exceptional and/or Extraordinary items)	(3.23)	(0.51)	accommunia 23	4.33	(19.74)
5	Paid up equity share capital	1,497.56	1,497.56	1,497.56	1,497.56	1,497.56
6	Reserve (Excluding Revaluation Reserves)	(1,716.16)	(1,712.93)	(1,717,26)	(1,712.93)	(1,717.26)
7	Earnings Per Share (EPS) (of Rs 10/-per share) (for continuing and discontinued operation) (1) Basic (2) Diluted	(0.02)		4)	0.03 0.03	(0.13)

Note: 1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly ended financial results filed with the Stock Exchange under Reg 33 of SEBI (LODR), 2015. The full format are available on Stock Exchange website.

For Jatalia Global Ventures Limited Mohd Nazim Khan Resolution Professional BBI Reg. No.: IBBI/IPA-002/IPN00076/2017-18/10207

AFA Valid upto 31.12.2025 Address: MNK House, 9A/9, 10 East Patel Nagar. Place: Delhi Date: 13.08.2025 New Delhi-110008



## SUPRIYA LIFESCIENCE LIMITED

CIN: L51900MH2008PLC180452

Regd Off: 207/208, Udyog Bhavan, Sonawala Road, Goregaon (East), Mumbai - 400063 Email: cs@suprivalifescience.com / Tel: + 91 22 4033 2727 / Website: www.suprivalifescience.com

## NOTICE FOR THE 17™ ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY

The 17" Annual General Meeting ("AGM") of Supriya Lifescience Limited ("Company") will be held on Wednesday, September 24, 2025 at 03.00 p.m. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Video Means ("OAVM") facility provided by the National Securities Depository Limited ("NSDL") to transact the business as set out in the notice convening the said AGM, in compliance with the relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), from time to time and the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations").

The Notice of the 17" AGM along with the Annual Report for FY 2024-25 has been sent by the Company only through electronic mode on September 1, 2025 to those Members whose email addresses were registered with the Company, Depository Participant(s) or MUFG Intime India Pvt. Ltd., the Company's Registrar and Share Transfer Agents. A letter containing the exact path for accessing the Annual Report for FY 2024-25 along with the Notice of AGM will be dispatched to Shareholders who have not registered their e-mail IDs.

The Notice of AGM and the Annual Report 2024-25 including instruction of e-voting is also available on the Company's website at www.supriyalifescience.com, BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of NSDL at https://www.evoting.nsdl.com. In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 of the Companies

(Management and Administration) Rules, 2014 ("Rules") as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. the Company is pleased to provide the facility of remote e-voting to its Members in respect of the Business to be transacted at the AGM. Additionally, the company is providing facility of voting during the AGM ("e-voting"). The facility of casting votes by a member using remote e-voting system as well voting on the date of the AGM will be provided by NSDL. The procedure to cast vote using remote e-voting system by NSDL has been described in the Notice of AGM. The remote e-voting period shall commence from Sunday, September 21, 2025 at 09.00 a.m. (IST) and ends on Tuesday,

September 23, 2025 at 05.00 p.m. (IST). During this period, those members, whose names are recorded in the Register of Members maintained by the Depositories, Company, MUFG Intime India Pvt. Ltd ("RTA") as on the cut-off date i.e. Friday, September 12, 2025 shall be entitled to cast their votes electronically. The voting rights of the members shall be in proportion to their shares in the paid-up equity share capital of the Company as on the Cut-off date Friday, September 12, 2025. Any Member who purchases shares after dispatch of Notice of AGM and holds the share(s) as on the cut-off date, may follow the instructions given in the Notice of AGM to cast their votes. The Members, who have cast their vote by remote e-voting prior to AGM, may also attend the AGM through VC/OAVM but

and have not already cast their votes on the resolutions via remote e-voting shall be eligible to vote through e-voting system. during the AGM.

shall not be entitled to cast their vote again at the AGM. The Members who are present at the AGM through VC/OAVM facility

All the members of the Company who have not registered their e-mail IDs can register the same as per the procedure: 1. The Members holding shares in physical form may get their e-mail addresses registered with RTA, at rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com by providing details such as Name, Folio Number, Certificate Number, PAN, mobile

2. The Members holding shares in Demat form may also temporarily register their e-mail addresses with the RTA, at rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com by providing details such as Name, DPID/Client ID, PAN, mobile number and e-mail ID. It is clarified that for permanent registration of e-mail address, the Members are requested to register the same with their respective DPs.

number and e-mail ID and also upload the image of share certificate in PDF or JPEG format (upto 1 MB).

In case of any queries, with respect to remote e-voting or e-voting at the AGM, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for shareholders available at the Download section of www.evoting.nsdl.com or call on 022-48887000 or can contact NSDL personnel, Ms. Pallavi Mhatre of NSDL at the designated e-mail id: evoting@nsdl.co.in.

By Order of Board of Directors

Date: September 1, 2025 Place: Mumbai

For Supriya Lifescience Limited Prachi Sathe

Company Secretary & Compliance Officer

# KAMDHENU LIMITED



CIN:L27101HR1994PLC092205 Regd. Office: 2" Floor, Tower A, Building No. 9, DLF Cyber City, Phase-III, Gurugram, Haryana-122002 Ph.: 91-124-4604500 Email: cs@kamdhenulimited.com Website: www.kamdhenulimited.com

NOTICE OF THE 318T ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) /OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM) AND EVOTING INSTRUCTIONS

NOTICE is hereby given that the 31" Annual General Meeting ("AGM") of members of Kamdhenu Limited ("Company") will be held on Thursday, 25" September, 2025 at 3:00 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") Other Audio Visual Means ("OAVM"), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as "Relevant Circulars"), to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM. Members intending to attend the AGM through VC/OAVM may attend the AGM by following the procedure prescribed in AGM Notice. Members participating in the AGM through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The proceeding of AGM conducted shall be deemed to be made at the Registered Office of the Company.

Further, in compliance with the Relevant Circulars, the Notice of the 31" AGM and the Annual Report for the financial year 2024-25, have been sent through electronic mode on 1st September, 2025 to those Members of the Company whose email addresses are registered in the records of the Company/ Registrar and Transfer Agent/ Company/ Depository Participant(s). The Annual Report for the financial year 2024-25 and the Notice of the 31" AGM, have been uploaded on the website of the company at <u>www.kamdhenulimited.com</u>, and is also available on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively.

## Instruction for remote e-voting and e-voting during AGM:

company at cs@kamdhenulimited.com.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Secretarial Standards - 2 on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, the Company is providing its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the 31" AGM by electronic means ("e-voting"). Members may cast their votes remotely, using the electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL) on the dates mentioned herein below ("remote e-voting").

a) The remote e-voting facility will be available during the following voting period:

Commencement of remote e-voting : 9:00 A.M. (IST) on Monday, 22nd September, 2025 End of remote e-voting 5:00 P.M. (IST) on Wednesday, 24" September, 2025

The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be forthwith disabled by NSDL upon expiry of the aforesaid period. The facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM ("Insta Poll") and

members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM through Insta Poll. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) as the agency to

provide e-voting facility. Information and instructions including details of user id and password relating to e-voting have been sent to the

members through e-mail. The same login credentials should be used for attending the AGM through VC / OAVM. e) The Cut-off date for determining eligibility of the members for remote e-voting as well as for voting at the AGM through Insta Poll is Thursday, 18" September, 2025 ("Cut-off date"). Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date may obtain the User

ID and password in the manner as provided in the Notice of the AGM and members can also send request to the

The manner of remote e-voting and voting at the AGM through Instapoll by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email address is provided in

The members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the AGM.

In case any query or grievance pertaining to remote e-voting before the AGM, e-voting during the AGM and joining the AGM through VC/OAVM. Members may refer the FAQs for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on Tel.: 022-48867000 or send a request at evoting@nsdl.com Members may contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL, Trade World, A wing, 4º Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai - 400013, Tel.: 022-48867000. Further, Members may also contact with Mr. Sharwan Mangla, General Manager, MAS Services Limited, a SEBI Registered RTA at sm@masserv.com; info@masserv.com or on Telephone No.: 011-26387281/82/83.

Mr. Rupesh Agarwal, Managing Partner, (A16302) or failing him Mr. Shashikant Tiwari, (F11919), or failing him Mr. Lakhan Gupta, Partners, of M/s. Chandrasekaran Associates, Practicing Company Secretaries, have been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the process for remote e-Voting and e-Voting at the AGM in a fair and transparent manner. The results of e-voting along with scrutinizer's report will be uploaded on the company's website www.kamdhenulimited.com and will be communicated to National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited, where securities of the company are listed.

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI Listing Regulations, the Record Date for the purpose of Dividend for the financial year 2024-25 and 31"AGM is Thursday, 18th September, 2025. The members appearing in the Register of Members as on the Record Date shall be entitled for the Dividend for the financial year 2024-25.

New Delhi

Date: 01.09.2025 Place : Gurugram

Khem Chand Company Secretary & Compliance Officer FCS:10065

For Kamdhenu Limited,

epaper.financialexpress.com

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः 27बीकेसी, सी-27, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा की धारा 13(2) (पूर्व), मुंबई - 400051 शाखा कार्यालयः कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, के तहत मांग 7वीं मंजिल, प्लॉट नंबर 7, सेक्टर-125, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201313।

आप. नीचे उल्लेखित ऋणधारक और सह-ऋणधारक ने अपनी अचल संपत्तियों (प्रतिभतियों) को बंधक रख कर बैंक/वित्तीय संस्थाः से ऋण लिया है, जिसका विशेष विवरण नीचे दिया गया है , लेकिन आपने ऋण की अदायगी में चुक की है। आप की चुक के कारण, आपका ऋण खाता गैर-निष्पादित परिसंपत्ति घोषित किया गया है तथा यह ऋण खाता. संबंधित सभी अधिकारों. शीर्षक. हितों व लाभे सहित नीचे दिए गए पृथक असाइनमेंट डीड्स के द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड को सौंप दिया गया है। इस असाइनमेंट के आधार पर तथा बकाया रकम की वसली के लिए बैंक ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभतिकरण और पनर्निर्माण तथा प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सुचना जारी किया है, जिसकी विषय-वस्तु को अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के अनुसार वैकल्पिक सेवा के रूप में यहां प्रकाशित की जा रही है ऋणधारक, सह-ऋणधारक, प्रतिभृतियों, ऋणदाता, बकाया रकम, धारा 13(2) के अंतर्गत भेजी गई मांग सूचना तथा उसमें दावा की गई राशि का विवरण नीचे प्रस्तत है:

ऋणधारक/सह- ऋणधारक के नाम एवं 1.कब्जे की तारीख; 2. कब्जे का प्रकार; अचल संपत्ति पते,ऋण खाता सं., ऋण की राशि का विवरण 3.मांग सूचना की तारीख; 4. देय राशि (रु.) श्री ताजवर सिंह, पुत्र श्री हरीश सिंह और 2. श्री खाता और खतौनी सं. 1079 (फसली 1. पिरामल कैपिटल एंड हरीश सिंह, पुत्र गब्बर सिंह और 3. श्रीमती भागीरथी 1420 से 1425) की वह पूरी भूमि, हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड देवी, पत्नी हरीश सिंह, सभी 1, 2 और 3 का पताः 128 जिसका खसरा सं. 280 ख है और (पीसीएचएफएल) दीप नगर पी.ओ. अजबपुर मोथरोवाला देहरादुन जिसका माप 113.9 वर्ग मीटर है, जो 2. 27.12.2024 उत्तराखंड-248001, सभी 1, 2 और 3 का एक और मौजा नवादा, परगना परवादन, जिला 3. 28.08.2025 पताः भागीरथी कम्युनिकेशन लेन-3 तपोवन रोड देहरादून 248001 में स्थित है। सीमाएँ 4. रू 15,00,312/-लाडपुर देहरादुन उत्तराखंड - 248001, सभी 1, 2 और इस प्रकार हैं: पुर्व: दुसरों की भूमि, (केवल पंद्रह लाख तीन सौ 3 का एक और पताः खसरा सं. 280 ख मौजा नवादा, पश्चिमः 15 फीट चौड़ी सड़क, उत्तरः बारह रुपये) जो 31.07.2025 परगना परवा दुन, जिला देहरादुन 248001, ऋण खाता 20 फीट चौड़ी सड़क, तक देय और भुगतान योग्य हैं, साथ में 01.08.2025 से पूर्ण संख्याः 09700008771, दक्षिणः दुसरों की भूमि। स्वीकृत ऋण राशिः रू 12,84,120/- (केवल बारह गिरवी रखने वाले का नामः श्री भगतान तक लाग ब्याज। लाख चौरासी हजार एक सौ बीस रुपये) हरीश सिंह, पुत्र स्वर्गीय गब्बर सिंह

अतः आप ऋणधारक, सह- ऋणधारक से अनुरोध किया जाता है कि ऊपर दर्शाई गई बकाया राशि तथा ब्याज की राशि को इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर पूर्ण रूप से चुका दें, अन्यथा, अधिकृत अधिकारी उक्त प्रतिभृतियों को प्रवर्तित करने के लिये कार्रवाई करने के लिये बाध्य होंगे। आपका ध्यान अधिनियम की धारा 13की उप धारा (8) के अंतर्गत आकर्षित की जाती है जिसके अनुसार आप उक्त अवधि के भीतर प्रतिभत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिये स्वतंत्र हैं। कृपया ध्यान रहे की हमारी लिखित अनमित के बिना आप अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, संपत्ति को बेचने, किराए पर देने या अन्य किसी प्रकार से स्थानांतरित करने के लिए प्रतिबंधित हैं। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के लिए, प्राधिकृत अधिकारी स्थानः देहरादुन, दिनांकः 02.09.2025

#### 7वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग जानकारी और लाभांश की सचना

रतदद्वारा सूचित किया जाता है कि डी.के. एंटरप्राइजेज ग्लोबल लिमिटेड के सदस्यों की 7वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) गुरुवार, 25 सितंबर, 2025 को दोपहर 12.30 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो–विज्अल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित अनुसार कार्यवाही संचालन हेतू आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के सभी लागू प्रावधानों सह पठित कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 और 17 / 2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के अनुपालन में ''कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनियों द्वारा साधारण और विशेष प्रस्तावों को पारित करने पर स्पष्टीकरण' के संबंध में, सामान्य परिपत्र संख्या 20 / 2020 दिनांक 5 मई, 2020, 10 / 2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 और इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपत्र, नवीनतम 09 / 2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 और इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपन्न, नवीनतम 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 (सामृहिक रूप से ''प्रासंगिक परिपत्र'' के रूप में संदर्भित) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों सहित वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक मोड में उन सदस्यों को भेज दी गई है जिनकी ईमेल आईडी कंपनी या डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकत हैं।

वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक आम बैठक की सूचना की प्रति कंपनी की वेबसाइट www.dkenterprises.co.in/annual-report.html, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड—इमर्ज प्लेटफॉर्म **www.nseindia.com** पर भी उपलब्ध है। ई—मेल के माध्यम से वार्षिक आम बैठक की सूचना भेजने का काम 01 सितंबर, 2025 को पूरा हो गया

ई-वोटिंग जानकारी सदस्यों को एनएसडीएल द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाती है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे www.evoting.nsdl.com पर जाएं और उन्हें प्रदान किए गए रिमोट ई–वोटिंग क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके शेयरधारकों / सदस्यों के लॉगिन तक पहुंचें। एजीएम में किए जाने वाले कारोबार के मदों की जानकारी संबंधित दस्तावेज www.evoting.nsdl.com पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगी। रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के लिए निर्देशः

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, जैसा कि समय–समय पर संशोधित किया गया है, और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार, सदस्यों की एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (''रिमोट ई–वोटिंग'') का उपयोग करके एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाती है। गुरुवार, 18 सितंबर, 2025 (''कट–ऑफ तिथि'') तक डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य www.evoting.nsdl.com के साथ रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। वह व्यक्ति जिसका नाम केवल कट–ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामी के रजिस्टर में दर्ज है, वह ही रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे। 2. रिमोट ई—वोटिंग अवधि सोमवार, 22 सितंबर, 2025 को सुबह 9.00 बजे (भारतीय मानक समय) से शुरू होगी और बुधवार, 24 सितंबर, 2025 को शाम 5.00 बजे (भारतीय मानक समय) पर समाप्त होगी। इसके बाद,एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, वह बाद में उसमें संशोधन

3. जिन सदस्यों ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट भेजने के बाद और कट—ऑफ तिथि से पहले शेयर प्राप्त किए हैं, वे evoting@nsdl.co.in या cs@dknterprises.co.in पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। हालाँकि, यदि कोई व्यक्ति पहले से ही रिमोट ई—वोटिंग के लिए पंजीकृत है, तो वह मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके वोट

1. एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य वीसी / ओएवीएम लेकिन जिन्होंने रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के पात्र होंगे (जब अध्यक्ष के निर्देश पर ई–वोटिंग के लिए विंडो सक्रिय हो जाती है)। जिन सदस्यों ने रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे, हालांकि वे बैठक में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा

5.ई–वोटिंग की प्रक्रिया एजीएम की सूचना के साथ–साथ एनएसडीएल द्वारा सदस्यों को भेजे गए ई—मेल में भी प्रदान की गई है। किसी भी प्रश्न के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में देख सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबरः 022–4886 ७००० पर कॉल करें या (सुश्री सरिता मोटे) को evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें

सदस्य कृपया ध्यान दें कि निदेशक मंडल ने 20 अगस्त, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए 2 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के लाभांश की सिफारिश की है। आगामी एजीएम में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन, लाभांश का भुगतान एजीएम की तारीख से 30 दिनों के भीतर उन सदस्यों को किया जाएगा जिनके नाम रिकॉर्ड तिथि यानी शूक्रवार, 29 अगस्त, 2025 को डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में दिखाई देते हैं। यह भूगतान उन सदस्यों को ऑनलाइन ट्रांसफर मोड के माध्यम से किया जाएगा जिन्होंने अपना ईसीएस मैंडेट / बैंक खाता विवरण पंजीकृत / अपडेट किया है। जिन सदस्यों ने अपना ईसीएस मैंडेट / बैंक खाता विवरण पंजीकृत/अपडेट नहीं किया है, उनके पंजीकृत पते पर लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट / चेक भेजे जाएंगे। लाभांश प्राप्त करने में देरी से बचने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे ऊपर बताए अनुसार अपना ईसीएस मैंडेट/बैंक खाता विवरण पंजीकृत/अपडेट करें।

वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसार, लाभांश आय 01 अप्रैल, 2020 से शेयरधारकों के हाथों में कर योग्य होगी और कंपनी को निर्धारित दरों पर शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश से स्रोत पर कर काटना आवश्यक है। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है

कि वे वित्त अधिनियम, 2020 और उसके संशोधनों का संदर्भ लें। इसके अतिरिक्त, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे इस संबंध में अपनी ओर से अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, यदि कोई हो, के बारे में अधिक जानकारी के लिए वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना

डी.के. एंटरप्राइजेज ग्लोबल लिमिटेड के लिए

स्थानः पंचकूला

देनांकः 01.09.2025

2. डेजी होम,

जिंदल कैपिटल लिमिटेड पंजी. कार्यालय: 201, अग्रवाल प्लाजा, सेक्टर-9, रोहिणी, दिल्ली-110085 फोन नं.: 011-45578272; CIN: L65910DL1994PLC059720 ईमेल आईडीः info@jindalcapital.co.in; वेबसाइटः www.jindalcapital.co.in

शेयरधारक अपने ईमेल पते पंजीकृत करें कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("सर्कलर") और भारतीय प्रतिभति और विनिमय बोर्ड द्वारा इस संबंध में जारी किए गए

लागू दिशानिर्देशों/सर्कुलरों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101 और उसके तहत बनाए गए नियमों, और सेबी (सचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनसार, सदस्यों कृपया ध्यान दें कि जिंदल कैपिटल लिमिटेड की 31वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") की सूचना भेजने के उद्देश्य से, जिन सदस्यों ने कंपनी/आरटीए के साथ अपने ईमेल पते अपडेट नहीं किए हैं और जो भौतिक रूप में शेयर रखते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए"), "एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड)" के प्लेटफॉर्म www.in.mpms.mufg.com पर जाकर अपनी केवाईसी अपडेट करें, जिसमें वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") की सुचना प्राप्त करने के लिए जल्द से जल्द अपने ईमेल आईडी को पंजीकृत करना शामिल है। जिन सदस्यों के शेयर डीमैट रूप में हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट करें। कंपनी अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट डालने के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करेगी और रिमोट ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया (जिसमें उन सदस्यों के लिए भी तरीका शामिल है जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं या जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वे रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट कैसे डाल सकते हैं) सूचना का हिस्सा होगी। वर्षिक आम बैठक ("एजीएम") का उपरोक्त सूचना कंपनी की वेबसाइट यानी www.jindalcapital.co.in और स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध कराया जाएगा। उपरोक्त जानकारी उक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। जिंदल कैपिटल लिमिटेड के लिए

कंपनी सचिव

PROFECTUS प्रोफेक्टस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड

दिनांक: 1 सितंबर, 2025

स्थानः दिल्ली

**🔳 ( A P | TA L पंजीकृत और कॉर्पेरेट कार्यालय का पताः** बी / 17, चौथी मंजिल, आर्ट गिल्ड हाउस, फीनिक्स मार्केट सिटी मॉल के पीछे, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई, 400070

#### कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) सरफेसी अधिनियम के नियम 8(1) और नियमों को देखें

जबिक, निम्न हस्ताक्षरकर्ता, प्रोफेक्टस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड का अधिकृत अधिकारी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय बी–17, चौथी मंजिल, आर्ट गिल्ड हाउस, फीनिक्स मार्केट सिटी, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई–400070 में है और शाखा कार्यालय 7–ई, 5वीं मंजिल, डीआरआई बिल्डिंग, स्वामी रामतीर्थ नगर, रानी झांसी रोड, झंडेवालान एक्सटेंशन, मध्य दिल्ली—110055 द्वारा वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 12 फरवरी, 2025 को डिमांड नोटिस जारी किया गया, जिसमें उधारकर्ता नीति बंसल (मेसर्स इंडिया मेटल कॉर्प) और सह-उधारकर्ता मन् बंसल को नोटिस में उल्लिखित राशि 07.02.2025 तक बकाया राशि रु. 85,76,206/- (पचास लाख छिहत्तर हजार दो सौ छह रुपये मात्र) को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया है।

उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में असफल रहने के कारण, निम्नलिखित उधारकर्ताओं और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि निम्न हस्ताक्षरकर्ता ने सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 क साथ पिटत अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा 30 अगस्त, 2025 को ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को संपत्ति से निपटने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार करने पर 07.02.2025 तक बकाया राशि रु.85,76,206 / ─ (पचास लाख छिहत्तर हजार दो सौ छह रुपये मात्र) और उस पर ब्याज, सभी लागत और शुल्क की राशि प्रोफेक्टस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

#### अचल संपत्ति का विवरणः

खसरा नंबर 1828 / 400, 22 मिन. में से, श्री राम नगर की आबादी में चंद्रावली गांव उर्फ घ्प्शाहदरा, इलाका शाहदरा, नई दिल्ली 110032 में स्थित संपत्ति नं. 1/286 का वह समस्त टकडा और अंश जिसका क्षेत्रफल 60 वर्ग गज यानी 50.16 वर्ग मीटर है।

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 30.08.2025

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, प्रोफेक्टस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड



पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालयः 501 - 503, पाँचवीं मंजिल, नई दिल्ली हाउस, 27 बाराखंमा रोड, नई दिल्ली - 110001. **टेलीफोन:** +91-11-43251111 फैक्स: + 91-11-43251140. कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन): U65910DL1994PLC057109

## कब्जा सूचना

जबकि, अघोहस्ताक्षरी, **कैपारो फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड,** जिसका पंजीकृत कार्यालय 501-503, पांचवीं मंजिल, नई दिल्ली हाउस, 27, बाराखंमा रोड, नई दिल्ली- 110001 है, के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आरितयों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद "सरफेसी अधिनियम" कहा जाएगा) के अंतर्गत, मेसर्स पीडी मेमोरियल रिलीजियस एंड एजुकेशनल एसोसिएशन ("उधारकर्ता"), श्रीमती बिमला सिंह लाठर, श्री जोगिंदर सिंह लाठर, श्री बिजेंद्र सिंह लाठर, श्रीमती सुमित्रा देवी, श्रीमती शांति देवी और मेसर्स प्रमु दयाल मेमोरियल एजुकेशनल एंड चौरिटेबल ट्रस्ट (जिन्हें इसके बाद सामृहिक रूप से "गारंटर" कहा जाएगा) को उधारकर्ता द्वारा प्राप्त वितीय सहायता के संबंध में एक मांग नोटिस जारी किया है, जिससे उधारकर्ता और गारंटरों को नोटिस में उल्लिखित राशि 9,20,03,104/- रुपये (नौ करोड़ बीस लाख तीन हजार एक सौ चार रुपये मात्र) चुकाने का आदेश दिया गया था ।

ऋणी और गारंटर द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, ऋणी और गारंटरों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियम, 2002 कें नियम 8 के साथ पठित, 2 सितंबर 2025 को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। उधारकर्ताओं, गारंटरों और आम जनता को एतदवारा इस संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन न करने की चेतायनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन कैपारों फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड द्वारा 29.08.2023 तक 9,20,03,104 /- रुपये (केवल नौ करोड़ बीस लाख तीन हजार एक सौ चार रुपये) की उक्त राशि के साथ-साथ 29.06.2023 से संविदात्मक दर पर भविष्य के ब्याज और अन्य शुल्कों के अधीन होंगा। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों के मोचन हेत् उपलब्ध समय के संबंध में है।

अचल संपत्ति का विवरण

खेवट संख्या ३५, मिन खाता संख्या ३६, मुस्तिल संख्या २३, किला संख्या 18/2/2, 19 और २२ तथा यूनिट संख्या 5-12, 8-0, 7-11 वाला भूखंड, राजस्व गांव सराय औरंगाबाद, तहसील बहादुरगढ़, जिला डाझर, हरियाणा में स्थित है तथा इस पर निर्मित /निर्मित होने वाली सभी इमारतें और संरचनाएं तथा इसका प्रत्येक भाग भी इसमें शामिल है।

दिनांकः 2 सितंबर, 2025

हस्ता. /-

राकेश कुमार

(प्रबंध निदेशक)

स्थानःनई दिल्ली

क्षितिज गुप्ता प्राधिकृत अधिकारी कपारो फाइनेंशियल सॉल्युशंस लिमिटेड (T) HEXA

हेक्सा ट्रेडेक्स लिमिटेड सीआईएन . L51101UP2010PLC042382

पंजीकृत कार्यालयः ए-1, यूपीएसआईडीसी इडं . एरिया, नंदगांव रोड कोसी कलां. जिला मथरा (उ. प्र.) 281403 निगम कार्यालयः जिंदल सेंटर,12, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

तदुद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 14वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 26 सितंबर, 2025 दोपहर 12:30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, ए-1 यूपीएसआईडीसी इंडस्टिंयल एरिया, नंदगांव

निर्धारित विषयों के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी। वार्षिक रिपोर्ट 2024–25 के साथ वार्षिक आम बैठक की सूचना केवल उन्ही सदस्यों को इलेक्टॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जा रही है, जिनके ईमेल पते कम्पनी / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकत हैं और जिनकी इमेल पंजिकत नहीं है उन अन्य सभी सदस्यों को भौतिक प्रतियां भेजी जा रही हैं । यह भी ध्यान दें कि नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2024–25 कम्पनी की वेबसाइट www.hexatradex.com, और स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी क्रमश उपलब्ध होगी। कट ऑफ तिथि दिनांक 22 अगस्त, 2025 को शेयर रखने वाले सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट 2024–25 के साथ नोटिस भेजा जा रहा हैं।

रोड, कोसी कलां, जिला मथुरा — 281403 (उ.प्र.) में उक्त वार्षिक आम बैठक बुलाने के नोटिस में

एतदृद्वारा यह भी सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटन आवश्यकताए) विनियम 2015, के विनियम 42 के अनुपालन में, कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर अंतरण किताब 20 सितंबर, 2025 से 26 सितंबर, 2025 तक (दोनों दिन शामिल) तक वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम २० और सेबी (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटन आवश्यकताएं) २०१५ के विनियम ४४ के भनुपालन में कंपनी अपने सदस्यों को दूरस्थ ई – वोटिंग की सुविधा प्रदान करती है जिससे वे कंपनी की 14वीं वार्षिक आम बैठक में पारित संकल्पों पर अपने वोट इलेक्टॉनिक विधि से दे सकें। सदस्य कृपया निम्नलिखित नोट करें :

क. दूरस्थ ई—वोटिंग मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 को सुबह 9.00 बजे आरंभ होगी और गुरुवार, 25 सितंबर, 2025 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी।

ख. दूरस्थ ई—वोटिंग गुरुवार, 25 सितंबर, 2025 को शाम 5.00 बजे के बाद उपलब्ध नहीं होगी।

दुरस्थ ई-वोटिंग और मतदान के लिए वोटिंग हेतु सदस्यों की पात्रता के निर्धारण की कट ऑफ तिथि 19 सितंबर, 2025 है। . कोई व्यक्ति जो बैठक की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और उसके पास कट

आफॅ तिथि 19 सितंबर, 2025 को शयेर धारिता है तो वे कंपनी के रजिस्टांर एव शेयर ट्रांसफर

ऐजेन्ट, आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री (प्र.) लि., बी–25 / 1, प्रथम तल, ओखला इंडस्टिंयल एरिया, फेज 2, नई दिल्ली—110020, फोन 011—36020465 / 66, ई—मेल sectshares@rcmcdelhi.com से संपर्क द्वारा अपने यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा वोट देने वाले सभी सदस्य वार्षिक आम बैठक में भाग भी ले सकते हैं,

किंतु उन्हें वार्षिक आम बैठक में अपना वोट देने की अनुमति नहीं होगी। मतदान के माध्यम से वोटिंग की स्विधा वार्षिक आम बैठक में केवल उन सदस्यों के लिए होगी

जिन्हानें दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नही दिया है। . सदस्य वार्षिक आम सभा की सूचना में बताए गए ई–वोटिंग के अनुदेश पढें या

https://evoting.nsdl.com पे देखें और अन्य पूछताछ के लिए आप सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) को देख सकते हैं और https://evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में सदस्यों के लिए ई-वोटिंग प्रयोक्ता मैनुअल उपलब्ध है।

हेक्सा ट्रेडेक्स लिमिटेड के लिए

हस्ता /-प्रवेश श्रीवास्तव कम्पनी सचिव एसीएस-20993

सनटेक इन्फ्रा सॉल्यूशंस लिमिटेड (पूर्व में सनटेक इन्फ्रा सॉल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) सीआईएन: U42900DL2009PLC189765,

स्थानः नई दिल्ली

तिथि : 01.09.2025

पंजीकृत कार्यालयः यूनिट संख्या 604-605-606, छठी मंजिल, एनडीएम-2, प्लॉट संख्या D—1,2,3, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, आनंदवास शकूरपुर, दिल्ली—110034, फोन नंबर: + 91-11-47057766/40 ईमेल आईडी: info@suntechinfra.com, वेबसाइट: https://suntechinfra.com

16वीं वार्षिक आम बैठक और रिकॉर्ड तिथि से संबंधित जानकारी कंपनी की 16वीं वार्षिक आम बैटक (''एजीएम'') वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी')/अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों (''ओवीएएम'') के माध्यम से सोमवार, 29 सितंबर, 2025 को दोपहर 01: 00 बजे कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमी (''अधिनियम'') और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (''सेबी'') (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमें, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") के सभी लागू प्रावधानों के अनुपालन में आयोजित की जाएगी, जिसे नवीनतम सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024, दिनांक 19 सितंबर, 2024 के साथ पढ़ा जाए, जिसे क्रमशः 8 अप्रैल, 2020 के परिपत्र संख्या 14 और 13 अप्रैल, 2020 के परिपत्र संख्या 17 के साथ पढ़ा जाए, जिसे कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है (इसके बाद सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी') / अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों ("ओवीएएम") के माध्यम से वार्षिक आम बैटक आयोजित करने की अनुमति दी है। कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'') या अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यम (''ओएवीएम''), एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड "'सेबी") ने अपने नवीनतम परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 को परिपन्न संख्या SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 05 जनवरी, 2023 के साथ पढ़ा, जिसे परिपत्र दिनांक 13 मई, 2022, 15 जनवरी, 2021 और 12 मई, 2020 (''सेबी परिपत्र'') और अन्य लागू परिपत्रों (सामूहिक रूप से ''प्रासंगिक परिपत्र'' के रूप मे संदर्भित) के साथ पढ़ा गया है, एजीएम बुलाने की सूचना में निर्धारित व्यवसाय का संचालन करने के लिए। सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकेंगे। अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम पूरा होना चाहिए।

 संबंधित परिपत्रों के अनुपालन में, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना और वित्तीय वर्ष 2024–25 के वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और उसके साथ संलग्न किए जाने वाले अन्य आवश्यक दस्तावेज, कंपनी के उन सभी सदस्यों को भेजे जाएँगे जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के पास पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट https://suntechinfra.com/?page\_id=4233 और स्टॉक एक्सचेंज, यानी एनएसई लिमिटेड https://www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे।

. ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट करने का तरीकारू यदि शेयर डीमैट मोड में हैं, तो कृ पया **DPID-CLID** (16 अंकों की क्चक ब्स्प्क या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी) शेयरधारक का नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) compliance@suntechinfra.com पर या मेसर्स मेसर्स सर्विसेज लिमिटेड, कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को sm@masserv.com पर प्रदान करें। ई—वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीका: (कं) सदस्य को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("ई-वोटिंग") के माध्यम से एजीएम की

सूचना में निर्धारित व्यवसाय पर अपना वोट डालने का अवसर मिलेगा। (खं) एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम रे एजीएम में मतदान कर सकेंगे। भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनके लिए वीसी/ओवीएएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और एजीएम के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने का तरीका एजीएम की सूचना में प्रदान किया जाएगा। (ग) सदस्यों द्वारा और जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनके

लिए रिमोटली (''रिमोट ई–वोटिंग'') मतदान करने का तरीका एजीएम की सूचना में प्रदान

5. वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के लिए बहीखाता बंदधरकॉर्ड तिथिः यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों के साथ कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 और लिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण बही एजीएम के प्रयोजनार्थ मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 से सोमवार, 29 सितंबर, 2025 (दोनों दिन

3. सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में दिए गए सभी नोट्स और एजीएम में शामिल होने, रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम<sup>ें</sup>से या एजीएम के दौरान वोट डालने के तरीके संबंधी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

सनटेक इंफ्रा सॉल्युशंस लिमिटेड के निदेशक मंद्रल की ओर से।

दिनांक: 01.09.2025 स्थानः नई दिल्ली,

गौरव गुप्ता, प्रबंध निदेशक, डीआईएन: 00548898

फॉर्म नं. आईएनसी-26

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30

के अनसार]

केन्द्रीय सरकार. क्षेत्रीय निदेशक, दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की

धारा 13 (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के

नियम 30(6) (ए) के संबंध में।

एएचआर सिटी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में,

जिसका पंजीकृत कार्यालय हाउस नं. 31, ब्लॉक-

बीएफ, शालीमार बाग, ईस्ट न्यू दिल्ली-110088, न्यू

एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "राष्ट्रीय

क्षेत्र दिल्ली से हिमाचल प्रदेश राज्य" में उसके पंजीकृत

कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम

बनाने के लिए गुरुवार, 28 अगस्त, 2025 को आयोजित

असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनसार

कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की

पृष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के

अंतर्गत आवेदक केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन

से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे अपनी

आपत्ति उसके ऊपर वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक

कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के

प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की

प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक

शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति बी-2 विंग, 2 रा

तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, 2 रा तल, सीजीओ

कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा

एएचआर सिटी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड

की ओर से और उसके लिए

अशोक कुमार गोयल

निदेशक: 07303934

कराएं या पंजीकृत डाक से भेजेः

दिनांक: 02.09.2025

स्थानः दिल्ली

दिल्ली नॉर्थ वेस्ट, डीएल-110088, भारत में है,

मामले में।

प्रस्ताव करती है।

# Enter a better life

## चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय : "चोला क्रोस्ट", सी 64 एवं 65, सुपर बी-4, थिरू वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिन्डी, चेन्नई-600032, भारत शाखा कार्यालय : प्रथम एवं द्वितीय तल, प्लॉट नंबर ६, मेन पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 कॉन्टैक्ट नंबर : श्री श्रीनिवास वी, मोबाइल नंबर 9643344410 एवं श्री ऐश्वर्य शांडिल्य, मोबाइल नंबर 9582246969

## अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(1) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतदद्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधकदता(ओं) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक निम्नवर्णित अचल सम्पत्तियां, जिनका सांकेतिक कब्जा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनेंस कम्पनी लिमिटेड इसमें आगे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनेंस कम्पनी लिमिटेड कही जाएगी, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है। प्रतिभृत आस्तियां "जैसा है जहां है", "जो है जैसा है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर ई-नीलामी के माध्यम से बेची जाएंगी। एतदद्वारा सर्वसाधारण को सचना दी जाती है कि हम ई-नीलामी का संचालन वेबसाइट https://chola-lap.procure247.com/ के माध्यम से करेंगे।

क्र. सं.	खाता संख्या तथा कर्जदार, सह–कर्जदार, बंघकदाताओं का नाम	धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि एवं राशि	सम्पत्ति/सम्पत्तियों का वर्णन		ई—नीलामी की तिथि एवं समय, ईएमडी जमा की अंतिम तिथि.
1.	<b>ऋण खाता सं. X0HEDHE00001156222</b> 1. शशि देवी स्त. सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : आवासीय सम्पत्ति सं. 36—सी, परिमाप 100 वर्ग गज यानी 83.61 वर्ग मीटर खसरा नंबर 1403, ब्लॉक—सी, सेक्टर—3, लोनी गिरि मार्किट, गाजियाबाद—201001  12—06—2021 सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : आवासीय सम्पत्ति सं. 36—सी, परिमाप 100 वर्ग गज यानी 83.61 वर्ग मीटर खसरा नंबर 1403, स्थित : ब्लॉक—सी, सेक्टर—3, गिरि मार्किट, ग्राम लोनी क्षेत्र, तहसील एवं किला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश प्लॉट नंबर 'ए—62' सेक्टर—सी—3 परिमाप 250 वर्ग मीटर औद्योगिक		निरीक्षण की तिथि		
		THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	मीटर खसरा नंबर 1403, स्थित : ब्लॉक-सी, रू. 33,75,000/- सेक्टर-3, गिरि मार्किट, ग्राम लोनी क्षेत्र, तहसील एवं जिला गाउँग्याबाद उत्तर प्रदेश प्लॉट नंबर 'ए-62' रू. 3,37,500/-	₹. 33,75,000 / -	23-09-2025 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे तक
		in control of			22-09-2025 पूर्वी. 10.00 बजे
	खसरा नंबर 1403, ब्लॉक-सी, सेक्टर-3, लोनी गिरि मार्किट, गाजियाबाद-201001	सांकेतिक	क्षेत्र टाउन शिप ट्रोनिका सिटी के भीतर स्थित, परगना / तहसील गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद, चौहददी निम्नानुसार – उत्तर ; ए–59. दक्षिण ; रोड–5. पूरब ; ए–63, पश्चिम ; ए–61।		से अप. 05.00 बजे तक भेंट के निर्धारित समयानुसार
	ऋण खाता संख्या XOHEEDL00002184191 और X0HEEDL00001807139  1. रवीन्द्र यादव  मकान नंबर ए-62, सेक्टर-सी-3, ट्रोनिका सिटी, रोड गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201102  2. बेजी होम	प्लॉट नंबर "ए-62" सेक्टर-सी-3, परिमाप 250 वर्ग <b>रु. 1,17,00,000 /</b> — मीटर, औद्योगिक क्षेत्र टाउन शिप ट्रोनिका सिटी के <b>रु. 11,70,000 /</b> —		23-09-2025 पूर्वा 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे तक	
			भीतर स्थित, परगना / तहसील गाजियाबाद, जिला रू. 1,00,000 / — गाजियाबाद, चौहददी निम्नानुसार — उत्तर ; ए—59, दक्षिण ; रोड–5, पूरव ; ए—63, पश्चिम ; ए—61।	₹ 100,000 /—	22-09-2025 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे तक
		The state of the s			भेंट के निर्धारित समयानुसार

मकान नंबर ए-62, सेक्टर-सी-3, ट्रोनिका सिटी, रोड गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201102 1. आईओएन—नोटिसेज। विस्तृत विवरण, सहायता, प्रक्रिया और ई—नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संमावित बोलीदाता सम्पर्क करें (मुहम्मद रहीस – 81240 00030), Ms.procure247.com (सम्पर्क व्यक्ति : वासु पटेल – 9510974587)

2. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए नियम और शर्तों के बारे में अतिरिक्त विवरण के लिए कृपया https://chola-lap.procure247.com/ एवं

https://cholamandalam.com/auction-notices देखें।

बी-71, सेक्टर-93-बी, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201301

यह सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(1) के तहत बिक्री के संबंध में 15 दिन का कानूनी नोटिस भी है

स्थान : दिल्ली / एनसीआर, दिनांक : 01-09-2025

हस्ता. /- प्राधिकृत अधिकारी चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

### **ALL E TECHNOLOGIES LIMITED** CIN: L72200DL2000PLC106331

Tel.: +91-120-3000 300, www.alletec.com Regd. Office: UU-14, Vishakha Enclave, Pitampura Delhi-110034, India

## NOTICE OF 25™ ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 25th Annual General Meeting (AGM) of the Members of All e Technologies Limited is scheduled to be held on Friday, September 26, 2025 at 3:00 PM (IST) through Video Conferencing/Other Audio-Visual Means (VC), in Compliance with General Circular latest one being Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 read with earlier circular and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) read with SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023, ('SEBI Circulars') and the applicable provision of the Companies Act, 2013 ('the ACT') read with the Rules made there under, to transact the business set forth in the Notice convening the 25th AGM (AGM Notice).

Completion of dispatch of AGM Notice & Annual Report For Fy'25: In compliance with MCA Circulars and SEBI Circulars, the Company has sent the AGM Notice and the Annual Report for FY'25 on Monday, September 01, 2025 via, e-mail, to those Members whose e-mail address was registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent/Depository Participant(s).

The AGM Notice and Annual Report are also available on the Company's Website at https://www.alletec.com/investors-alletec, on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com and also on the website of the Stock Exchange i.e. The National Stock Exchange of India Limited at https://www.nseindia.com/.

E-voting: In compliance with Section 108 of the Act read with the Rules made thereunder, Regulation 44 of the Listing Regulations and the Secretarial Standard – 2 on General Meeting issued by the Institute of Company Secretaries of India, Members have been provided with the facility to cast their vote on all resolution set forth in AGM Notice using electronic voting system (e-voting) provided by NSDL. Only those Members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on Friday, September 19, 2025 ('Cut-off date') will be entitled to cast their vote by remote evoting or e-voting during the AGM. Participation of members through VC will be

reckoned for the purpose of quorum for the AGM as per Section 103 of the Act The voting right of the Members shall be in proportion to their shareholding to the paidup equity share capital of the Company as on the Cut off date. Once a vote is cast by a Member, she/he will not be able to change it subsequently. Members can opt for only one mode of voting i.e. through remote e-voting or e-voting at the AGM. If a Member casts the votes by both modes then the voting done through remote e-voting shall prevail. Detailed procedure for remote e-voting and e-voting during the AGM and access to the AGM is outlined in Notes to the AGM Notice.

The Remote e-voting period begins on Tuesday, September 23, 2025 (9:00 AM IST) and ends on Thursday, September 25, 2025 (5:00 PM IST). Thereafter, the remote evoting module shall be disabled by NSDL and Members will not be allowed to vote. Members who have exercised their right to vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

Dividend: The Board of Directors at its meeting held on May 21, 2025has recommended a final dividend of ₹ 1.50 per Equity Share of the face value of ₹ 10/each (i.e. 15% on the face value of Equity Share). The Record Date for the purpose of Payment of Final Dividend is fixed as **Friday, September 19, 2025**, if approved at the 25th AGM, Members may please refer to Notes of the AGM Notice for TDS-related instructions on dividend payment.

Members who have not registered/updated their e-mail address and/or bank account details are requested to register/update the same in the records of the Company/Depository, as case may be, in the following manner:

Members holding share in the Demat form	Through their respective Depository Participant (DP)
Members holding share in the Physical form	Through the Company RTA i.e Skyline Financial Services Private Limited

For any queries relating to e-voting, Members may refer to the frequently asked questions (FAQs) and e-voting user manual available in the download section of www.evoting.nsdl.com or call on.: 022 - 4886 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre - Senior Manager, NSDL at evoting@nsdl.com.

By order of the Board of Directors All E Technologies Limited

September 01, 2025

Ajay Mian Managing Director DIN No. 00170270

# पुरुषोत्तम इंवेस्टोफिन लिमिटेड

रिज.कार्यालयः एल-७७, मेन्ज फ्लोर, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, दक्षिण दिल्ली-110016, सीआईएनः L65910DL1988PLC03379, वेबसाइटः www.purshottaminvestofin.in ईमेलः purshottaminvestofin@gmail.com, फोन नं 011-46067802

36वीं एजीएम एवं रिमोट ई-वोटिंग जानकारी की सूचना दिनांक 20 अगस्त, 2025 को प्रकाशित हमारे पूर्व के विज्ञापन की निरंतरता में एतदद्वारा सूचित किया जाता

है कि कंपनी की 36वीं वार्षिक साधारण सभा का आयोजन, 36वीं एजीएम सूचना में निर्धारितानुसार व्यवसाय का लेन—देन करने के लिए, शुक्रवार, 26 सितंबर,2025 को शाम 04.30 बजे(भा.मा.स.) पर वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य दृश्य–श्रव्य माध्यमीं (ओएवीएम) के माध्यम से किया जाना अनुसूचित है। यह आयोजन, किसी साधारण स्थल पर सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना, एमसीए/सेबी परिपत्रों के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 तथा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के लागू प्रावधानों के अनुपालन में किया जाएगा परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2024–25 के वार्षिक प्रतिवेदन एवं आभासी एजीएम की सूचना सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में उन ईमेल आईडी में प्रेषित कर दी गई है जो उनके द्वारा 01 सितंबर 2025 को अथवा इससे पूर्व कंपनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ पंजीकृत करायी गयी हैं। सदस्यों को सूचना की वास्तविक प्रति भेजने की आवश्यकता को सुसंगत परिपत्रों के द्वारा समाप्त कर दिया गया है इसके अतिरिक्त, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सूचीबद्धत विनियम) के विनियम 36(1)(बी) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के वेबलिंक और सटीक पथ वाला एक पत्र उन शेयरधारकों के पंजीकृत पते पर भेजा जाएगा जिनके ई–मेल पते कंपनी / आरटीए / डीपी के साथ 01 सितंबर, 2025 को या उससे पहले पंजीकृत नहीं हैं।

कंपनी के वित्तीय वर्ष 2024—25 के वार्षिक प्रतिवेदन के साथ एजीएम की सूचना की ई—प्रति, कंपनी की वेबसाइट www.purshottaminvestofin.in तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध होगी। कंपनी एजीएम आयोजन में वोट डालने के लिए शुक्रवार,19 सितंबर,2025 कट—ऑफ तिथि के अनुसार अंशों को धारण करने वाले अपने सदस्यों को ई–वोटिंग सुविधा उपलब्ध करा रही है। सदस्यगण, सभा के ख्यल (ई–वोटिंग) के अतिरिक्त किसी अन्य स्थल से एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का उपयोग करके अपने वोट डाल सकते हैं। कंपनी ने रिमोट ई–वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एनएसडीएल को कार्यव्यस्त किया है। कंपनी अधिनियम 2013 तथ उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के प्रावधानों के अनुसार विवरण, निम्नानुसार हैं: . ई—वोटिंग अवधि का प्रारंभ मंगलवार, 23 सितंबर 2025 को प्रातः 09.00 बजे (आईएसटी) तथा समापन गुरुवार 25 सितंबर 2025 को सायं 05.00 बजे (आईएसटी) होगा।

दिनांक 25 सितंबर 2025 को सायं 05.00 बजे के उपरांत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की अनुमति नहीं

एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों का लेन-देन, रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग सविधा के माध्यम से किया जा सकता है। कंपनी की अंश अंतरण बहियां, शनिवार 20 सितंबर 2025 से लेकर के शुक्रवार 26 शनिवार 2025(दोनों

दिवस सम्मिलित) तक वार्षिक सामान्य सभा के उद्देश्यार्थ बंद रहेंगी। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि अर्थात 19 सितंबर 2025 के अनसार कंपनी की प्रदत्त समता अंश पंजी के उनके अंशों के अनुपात में होंगे। कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की सचना के प्रेषण के उपरांत कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि अर्थात् 19 सितंबर, 2025 के अनुसार अंशो

को धारण करता है, वह evoting@nsdl.co.in पर अथवा info@masserv.com पर एक अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। सदस्यों द्वारा प्रॉक्सीज की नियुक्ति की स्विधा उपलब्ध नहीं होगी क्योंकि एजीएम का आयोजन वीसी/ओएवीएम के माध्यम से किया जा रहा है। एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि के अनसार एक सदस्य नहीं है, उसे एजीएम की सचना को केवल जानकारी ई-वोटिंग तथा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने से संबंधित किसी भी प्रश्न अथवा

शिकायत की स्थिति में, सदस्यगण एनएसडीएल,टी301, तृतीय तल, नमन चेम्बर्स, जी ब्लॉक, प्लॉट संख्या-सी-32, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई-400051 से ई-मेल: evoting@nsdl.co.in, टोल फ्री नं. 022 48867000 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सदस्यगण श्री श्रवण मंगला, महाप्रबंधक, एमएएस सर्विसेज लिमिटेड, आरटीए को info@masserv.com पर अथवा दूरभाष सं 011-26387281 / 82 / 83 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित विवरणों के लिए कृपया एजीएम की सूचना का संदर्भ लें। यदि आपके पास रिमोट ई—वोटिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो कृपया https://www.evoting.nsdl.co.in के डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध अंशधारकों हेतु फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेशचन्स (''एफएक्यू'') और ई–वोटिंग यूजर मैन्युअल

श्री कुंदन अग्रवाला, एक व्यवसायरत् कंपनी सचिव (सदस्यता सं. एफसीएस 7631), स्वामी मैसर्स कुंदन अग्रवाल एंड एसोसिएटस को एक समुचित एवं पारदर्शी प्रविधि के अंतर्गत वोटिंग एवं रिमोट ई-वोटिंग की जांच-पड़ताल करने के लिए जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधान के साथ पठित सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के विनियमन

44 के अनुसार परिणामों की घोषणा,सभा के समापन से, उन्हें कंपनी की वेबसाइट (www.purshottaminvestofin.in) पर डालकर तथा बीएसई लि. के साथ फाइलबद्ध करके की जाएगी। इन्हें कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के सूचना-पट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। एक सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के उपरांत

भी एजीएम में भागीदारी कर सकता है, परंतु उसे सभा में पुनः वोट डालने की अनुमित नहीं दी जाएगी जिन सदस्यों ने अपने ई–मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं उनसे अनुरोध है कि निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए उन्हें पंजीकृत कर लें: भौतिक कंपनी के रजिस्ट्रार अर्थात, एमएएस सर्विसेज लिमिटेड, टी-34, द्वितीय तल,ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–II,नई दिल्ली– 110020 के पास निर्धारित प्रपत्र आईएसआर 1 एवं अन्य सूसंगत प्रपत्रों में एक अनूरोध

भेजें, इसे कंपनी की वेबसाइट www.purshottaminvestofin.in/shareholder kyc details.html और होल्डिंग आरटीए वेबसाइट www.masserv.com पर डाउनलोड टैब के अंतर्गत डाउनलोड किया जा सकता है। आप फॉर्म आईएसआर—1 और अन्य संबंधित फॉर्म कंपनी के आरटीए,एमएएस सर्विसेज लिमिटेड को info@masserv.com पर कंपनी के नाम से pil.cs0187@gmail.com पर कॉपी मार्क

कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और डीपी की सलाह पर नियत प्रक्रिया के अनुसार अपने ईमेल पते पंजीकृत करें ,कृपया एनएसीएच द्वारा लाभांश भुगतान के लिए अपने डीपी के साथ अपने बैंक विवरण अद्यतन भी करें, यदि भविष्य में कंपनी द्वारा घोषित किया जाता है।

वीसी अथवा ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होनेवाले समस्त अंशधारक / सदस्य, जो कछ कहना चाहते हैं अथवा प्रश्न पूछना चाहते हैं, उन्हें 19 सितंबर 2025 को अथवा इससे पूर्व अपने नाम, डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी / फोलियो नंबर, पैन, मोबाइल नंबर एवं अंशों की संख्या का उल्लेख करते हुए स्वयं को पंजीकृत करना होगा और अपने प्रश्नों को भेजना होगा और विषय लाइन कंपनी की ई-मेल आईडी अर्थात् pil.cs0187@gmail.com पर पुरुषोत्तम इन्वेस्टोफिन लिमिटेड का स्पीकर

कृते पुरुषोत्तम इंवेस्टोफिन लिमिटेड

अंकित गुप्त कंपनी सचिव स.सं.: ए५५२०१

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 01.09.2025

पंजीकरण विषय पंक्ति होनी चाहिए।